

दिल्ली पुलिस के शालीमारबाग वायरलेस मुख्यालय में एसीपी राजबीर मालिक ने "सर्वज्वरहर" को कोरोना बीमारी में रामबाण जैसी औषधि बताई

(22 मई 2020 शालीमारबाग ,नई दिल्ली)

दूरसंचार दिल्ली पुलिस मुख्यालय शालीमारबाग में एसीपी राजबीर मालिक ने स्वामी श्री रामशरण जी द्वारा स्थापित "गांधी विद्या मंदिर" सरदारशहर चुरू(राजस्थान) के आयुर्वेदिक विश्व भारती द्वारा निर्मित 800 वर्ष पुरानी पद्धति से निर्मित "सर्वज्वरहर"चूर्ण की 1000 पैकेट को प्राप्त करने के बाद विश्वव्यापी कोरोना महामारी में रामबाण के रूप में कम करने व श्री भंवर लाल दुगड़ आयुर्वेद विश्वभारती महाविद्यालय सरदारशहर,चुरू के रसायनशाला के चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों को धन्यवाद दिया ।

पुलिस मुख्यालय में तकरीबन 1000 पुलिस कर्मी सेवारत हैं |सर्वज्वरहर चूर्ण के बारे में बताते हुएआई ए एस सी विश्वविद्यालय के दिल्ली प्रमुख श्री एकांत शर्मा व एडवोकेट मनीषा शर्मा ने एसीपी राजबीर मालिक को विश्वास दिलाया कि कोरोना जैसी त्रासदी वाली महामारी में अपनी शारीरिक दक्षता मजबूत करने के लिए ये काढ़ा भारत के कई प्रदेशों के पुलिस बीएल में भेजा गया है,जहां से इसके सफल व सार्थक परिणाम बताये जा रहे हैं ।

सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम हाइडेरपुर शालीमारबाग के एसीपी द्वारा "गांधी विद्या मंदिर"सरदारशहर चुरू (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री हिमांशु दुगड़ जी 1000 सर्वज्वरहर चूर्ण उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया था |इसी तारतम्यता में एकांत शर्मा ने ये भी बताया कि तकरीबन पौने चार लाख लोगों को कोरोना वाइरस क्रामण से रोकथाम के लिए इस चूर्ण को निःशुल्क वितरित किया गया है|16 मार्च 2020 से ही विश्वविद्यालय के 400 कार्मिक दिन-रात एक करते हुए इस काढ़े के पाउच को विशेष आयुर्वेद चिकित्सकों की देख-रेख में तैयार किया जा रहा है|एसीपी मालिक अपने सभी पुलिस कर्मियों को प्रयोग करने व कोरोना बीमारी से भयभीत न होने की बात की|"गांधी विद्या मंदिर"सरदारशहर चुरू के बारे में बताते हुए एकांत शर्मा व एडवोकेट मनीषा शर्मा ने स्वामी श्री रामशरण जी के दिखाये मार्ग पर चलने की प्रेरणा की महत्ता पर बल देते हुये इनके सीख को दुहराया कि ...

"कुछ ना चाहों काम आ जाओ ।
कोई और नहीं,कोई गैर नहीं ॥

सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज ,भविष्य का भय न पालते हुए कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के साथ "सर्वज्वरहर" काढ़ा के सेवन से कोरोना के रोग रूपी युद्ध में दिल्ली पुलिस बल के कार्मिक कुशल योद्ध्या साबित होंगे|एसीपी राजबीर मालिक ने कोरोना महामारी व अन्य सामाजिक समरसता को एकजुट करने के

उद्देश्य से एक अपना यूट्यूब चैनल (JANSEWA FOUNDATION)का कुशल संचालन भी करते हैं जिसके माध्यम से समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग निरोग व स्वस्थ रह सकें।

(रूपम वर्मा ,एमजेएमसी एवं डॉ. जनार्दन यादव की रिपोर्ट)



